

अच्छा खाने-स्वस्थ रहने का संदेश लेकर 18 हजार किमी यात्रा पर निकले दल का स्वागत

Bhilwara News - भीलवाड़ा | जीवन में ईटिंग हेल्दी, ईटिंग सेफ, ईटिंग फोर्टिफाइड, नो फूड वेस्ट, साइक्लिंग और ब्रिस्क वॉकिंग जैसी आदत...

Dainik Bhaskar

Dec 21, 2018, 02:41 AM IST



अध्याप
को दो
समाधा
कर्मचा
—
बंप
दि

भीलवाड़ा | जीवन में ईटिंग हेल्दी, ईटिंग सेफ, ईटिंग फोर्टिफाइड, नो फूड वेस्ट, साइक्लिंग और ब्रिस्क वॉकिंग जैसी आदत बनाने का संदेश देने वाली स्वस्थ भारत यात्रा गुरुवार को जिले में पहुंची। जिले की हमीरगढ़ सीमा से बरड़ोद चौराहा, गुवारड़ी व मंडफिया चौराहा होते हुए शहर में पहुंची। यात्रा दल के सदस्यों का मालाओं, ढोल नगाड़ों और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। स्वास्थ्य वीडियो से स्वस्थ भारत यात्रा का उद्देश्य लोगों को बताया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेसी जीनगर ने बताया कि स्वस्थ भारत यात्रा के साथ जुड़े साइकिल सवारों को मुखर्जी उद्यान में सम्मान समारोह में अतिरिक्त कलेक्टर (शहरी) राजेंद्र कविया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह यात्रा पूरे देश में 18000 किमी. का सफर तय करेगी। देश के 303 शहरों में आमजन को स्वस्थ भोजन करने, पौष्टिक खाने व सही चुनने का संदेश प्रसारित करेगी। 21 दिसंबर को सुबह साइकिल सवार सदस्य स्थानीय दलों के साथ प्रभातफेरी, चिकित्सा जांच शिविर व

स्वास्थ्य जागरूकता की जानकारी फैलाएंगे। शाम को 5 बजे से सूचना केंद्र, पुरानी धानमंडी व जवाहर नगर सब्जी मंडी में खान-पान से संबंधित जागरूकता के लिए आईईसी वैन के माध्यम से वीडियो फिल्म दिखाएंगे। यात्रा को 22 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे कलेक्ट्रेट के सामने से ध्वज दिखाकर बिजयनगर के लिए विदा किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. मुश्ताक खान, डॉ. घनश्याम चावला, डॉ. सीपी गोस्वामी आदि चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 6 साइकिल यात्राएं हो रही हैं। इनमें से साइकिल यात्रा नंबर दो पणजी (गोवा) से 16 अक्टूबर को शुरू हुई थी। यह गुरुवार को जिले में प्रवेश हुई। इसमें चित्तौड़ से सैनिक स्कूल के 25 एनसीसी कैडेट साइकिल यात्रा लेकर भीलवाड़ा पहुंचे। आगे की यात्रा भीलवाड़ा से विजयनगर तक एमएलवी महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट तय करेंगे। एमएलवी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स साइकिल से बिजयनगर तक जाएंगे। शुक्रवार को लव गार्डन से टाउन हॉल नगर परिषद तक प्रभातफेरी होगा।